



INTELLECTUAL
PROPERTY INDIA

PATENTS | DESIGNS | TRADE MARKS
GEOGRAPHICAL INDICATIONS



सत्यमेव जयते

क्रमांक : 044130906
SL No :



भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

पेटेंट कार्यालय
THE PATENT OFFICE

पेटेंट प्रमाणपत्र
PATENT CERTIFICATE
(Rule 74 Of The Patents Rules)

पेटेंट सं. / Patent No. : 369130
आवेदन सं. / Application No. : 201741046491
फाइल करने की तारीख / Date of Filing : 23/12/2017
पेटेंटी / Patentee : INDIAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY MADRAS (IIT Madras)
आविष्कारक (जहां लागू हो) / Inventor(s) : 1.Thalappil Pradeep 2.Sandeep Bose 3.Mohd. Azhardin Ganayee 4.Biswajit Mondal 5.Sudhakar Chennu

प्रमाणित किया जाता है कि पेटेंटी को उपरोक्त आवेदन में यथाप्रकटित METHOD FOR PREPARING LUMINESCENT SILICON NANOPARTICLES FROM RICE HUSK USING MICROWAVE IRRADIATION नामक आविष्कार के लिए, पेटेंट अधिनियम, 1970 के उपबंधों के अनुसार आज तारीख 23rd day of December 2017 से बीस वर्ष की अवधि के लिए पेटेंट अनुदत्त किया गया है।

It is hereby certified that a patent has been granted to the patentee for an invention entitled METHOD FOR PREPARING LUMINESCENT SILICON NANOPARTICLES FROM RICE HUSK USING MICROWAVE IRRADIATION as disclosed in the above mentioned application for the term of 20 years from the 23rd day of December 2017 in accordance with the provisions of the Patents Act,1970.



अनुदान की तारीख : 11/06/2021
Date of Grant :

पेटेंट नियंत्रक
Controller of Patent

टिप्पणी - इस पेटेंट के नवीकरण के लिए फीस, यदि इसे बनाए रखा जाना है, 23rd day of December 2019 को और उसके पश्चात प्रत्येक वर्ष में उसी दिन देय होगी।

Note. - The fees for renewal of this patent, if it is to be maintained will fall / has fallen due on 23rd day of December 2019 and on the same day in every year thereafter.